

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन  
हुआ (11-25 July, 2022)

उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक का उचित प्रबंधन हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर उर्वरक विक्रेताओं के बीच चलाआ रहा 15 दिवसीय प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र मांझू रामगढ़ में सोमवार को संपन्न हुआ। मौके पर केंद्र परिसर में एक समारोह का आयोजन हुआ जिसके मुख्य अतिथि जगन्नाथ उरांव निदेशक प्रसार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची ने प्रमाण पत्र बांटे । उन्होंने कहा कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ अधिक मुनाफा कमाने के लिए उर्वरक का प्रबंधन आवश्यक है । केंद्र के प्रभारी डॉ दुष्यंत राघव ने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों को मिट्टी जांच , फल एवं सब्जी , सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन एवं जल प्रबंधन के ऊपर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई है। इस प्रशिक्षण की शुरुआत 11 जुलाई से हुई। जिसमें रामगढ़ एवं हजारीबाग जिला के 40 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं । इस प्रशिक्षण में रांची , पटना, नई दिल्ली, गोरिया करमा, बक्सर के अनेक अधिकारियों ने प्रशिक्षणार्थियों को कई महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराकर विस्तृत जानकारी दी है। प्रशिक्षण के दौरान 16 जुलाई, 2022 को डॉ एस.एस. सिंह कृषि प्रसार निदेशक रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षणार्थियों को पोषक तत्व प्रबंधन विषय विशेष जानकारी दी और उन्होंने प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी को अपने व्यवसाय और किसानों के बीच सदुपयोग करने कि सलाह दी । डॉ ऐ.के. सिंह प्रधान शोध केंद्र, प्लांझू तथा डॉ विकाश दास, प्रधान वैज्ञानिक ने भी प्रशिक्षणार्थियों को फल एवं सब्जी में उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी दी और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र का भ्रमण किया । इस प्रशिक्षण में किसानों को शोध केंद्र, प्लांझू, राँची का भ्रमण भी कराया गया । समापन समारोह के दौरान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. इन्द्रजीत, डॉ. धर्मजीत खेरवार, सनी कुमार, शशिकांत चौबे के साथ कई किसान उपस्थित थे।

